

Show Ability (CAN/ COULD/ ABLE TO)

इस class की शुरू में एक बहुत ही easy question से कर रही हूँ। What can you do for me? (आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं?)

Surprise मत होइए। यह question आपसे interview में भी पूछा जा सकता है - What can you do for the company?

इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान है फिर भी हम इसमें गलती कर देते हैं। हम बहुत कुछ express करना चाहते हैं और करते भी है पर इंग्लिश में बोलते समय present और past abilities बताने में गलती कर देते हैं। इसलिए आज का इस lesson में हम सीखेंगे अपनी abilities मतलब योग्यता/ क्षमता को बताना।

Ability को व्यक्त करने के modal verbs का use किया जाता है। सबसे पहले हम short में जान लेते हैं कि modal verbs क्या होते हैं -

“Modals ऐसी सहायक क्रियाएँ होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किये जाने वाले कार्य की समर्थता, सम्भावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके।”

Normally लोग अपनी क्षमता को बताने के लिए be able to का use करते हैं क्योंकि यह सब आसान है। पर अब हम can, could, और managed to का use करना भी सीखेंगे।

Present (वर्तमान) और future (भविष्य) की ability को व्यक्त करने के लिए Can और be able to का use किया जाता है।

I can speak good English. (मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ।)

I can't ride the bike for 10 hours. (मैं 10 घंटे तक बाइक नहीं चला सकता।)

I can't swim. (मैं तैर नहीं सकता।)

I'm unable to swim. (मैं तैरने में असमर्थ हूँ।)

I'm not able to swim. (मैं तैरने में सक्षम नहीं हूँ।)

I am able to write with both hands. (मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ।)

We can't enter this street because it's blocked. (हम इस सड़क में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यह बंद है।)

If you ask him, he can probably help you. (यदि आप उससे पूछें, तो वह शायद आपकी मदद कर सके।)

I am not able to help you at the moment. (मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ।)

I will probably be able to get there by 9. (मैं शायद 9 तक वहां पहुंच पाऊंगा।)

He lost control of his car but managed to avoid a crash. (उसने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया लेकिन दुर्घटना से बचने में सफल रहा।)

(NOTE: managed to का use specific ability को बताने के लिए किया जाता है। General ability means that a person has the ability to do something at all times and in all situations. Specific ability means that the person had the ability to do something in a specific situation or at a specific time.)

Can का use question पूछने के लिए भी किया जाता है - आप क्या कर सकते हैं? जैसे -

Can you dance? (क्या आप नृत्य कर सकते हैं?)

Can you sing? (क्या आप गा सकते हैं?)

Can you swim? (क्या आप तैर सकते हैं?)

Could and was/were able to का use past (भूतकाल) की general ability को बताने के लिए किया जाता है जैसे -

I couldn't win the prize last year. (मैं पिछले साल पुरस्कार नहीं जीत सका।)

I could run very fast when I was 25 years old. (जब मैं 25 साल का था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था।)

I was able to sing beautifully when I was at school. (जब मैं स्कूल में थी तब मैं खूबसूरती से गा पाती थी।)

I could swim when I was five. (जब मैं पाँच साल का था तब मैं तैर सकता था।)

I was able to swim when I was five. (जब मैं पाँच साल का था तब मैं तैरने में सक्षम था।)

हमारे एक user की query थी कि **could have** का use कब कर सकते हैं - **We use could have to say that someone had the ability or opportunity to do something, but did not do it.** जैसे -

She could have learned English, but she didn't want to. (वह अंग्रेजी सीख सकती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी।)

वह यश काम कर सकती थी, इंग्लिश सीख सकती थी, उसके पास **opportunity** भी थी फिर भी उसने नहीं सीखी। वह नहीं सीखना चाहती थी।)

I could have danced all night. [but I didn't] (मैं पूरी रात dance कर सकती थी [पर मैंने नहीं किया]

जो काम हम **future** में कर सकते हैं, उन्हें बताने के लिए **will be able to** का use करते हैं।

I will be able to visit you if I go there on holiday. (अगर मैं छुट्टी में वहाँ जाता हूँ तो मैं आपसे मिलने आ पाऊँगा।)

I will be able to do it. (NOT I can be able to do it.) (मैं यह कर लूँगा।)

The teacher can assist you after class if you have any questions. (यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो शिक्षक कक्षा के बाद आपकी सहायता कर सकते हैं।)

I will be able to attend the meeting tomorrow. (मैं कल मीटिंग में शामिल हो सकूँगा।)

अब बात करते हैं कि अगर यही **question** - **“What can you do for us that other candidates can't?”** interview में पूछा जाए तो उसका **answer** इंग्लिश में कैसे दिया जाएगा? यह **question** आपको परेशानी में डाल सकता है। इस समय आपको **impressive** भी **sound** करना है और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि आपके **answer** से यह ना लगे कि आप बहुत ज्यादा अपने आप पर अभिमान कर रहे हैं। इसी **question** को इस तरह भी पूछा जा सकता है - **“What are the one or two things that make you special?”**

इस समय आप अपने **job skills, training, और project experiences** के बारे में बता सकते हैं। और किस तरह से आपने वहां **contribute** किया। आप कह सकते हैं -

I am a well rounded individual with a very unique blend of skills. Past training and job experiences have allowed me to take on and complete projects and assignments of high importance and increasing difficulty while on time and under budget.

(well rounded - (of a person) having a personality that is fully developed in all aspects - हर तरह से सक्षम व्यक्ति)

या

I have the ability to connect with anyone on my team, bringing a sense of cohesiveness to the workplace.

(cohesiveness - the quality of forming a united whole (सबको जोड़ कर रखने की कला))

Or

I can work in all the situations and handle the tough situations very efficiently. I have the ability to work in teams. At work, my main focus is always on the completing the given task on the given time frame and under the budget.

हालांकि यहाँ पर अपनी योग्यता बताने के लिए हमने **can word** का **use** नहीं किया है पर आप कुछ इस तरह से अपने **answer frame** कर सकते हैं। यह सिर्फ एक **example** है।

Permission

अगर आपको किसी से **permission** लेनी हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह जानना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि चाहे आप घर में हो या ऑफिस में, अपने **senior** से किसी बात के लिए **permission** लेनी हो या फिर **interview** में इसकी जरूरत हो, आपको **effectively permission** लेना, उसे **accept** करना या मना करना आना चाहिए।

Permission के लिए हम **Can I + verb** का **use** कर सकते हैं यह एक बहुत ही **formal** तरीका है जैसे -

Can I go out tonight? (क्या मैं आज रात बाहर जा सकता हूँ?)

Can he have dinner with us? (क्या वह हमारे साथ डिनर कर सकता है?)

Can I go out of the room? (क्या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ?)

Can I use your bathroom? (क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ?)

Can I leave now? (क्या अब मैं जा सकता हूँ?)

Can I raise the volume? (क्या मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ?)

Can I sit here? (क्या मैं यहां बैठ सकता हूँ?)

'COULD' का use भी polite permissions के लिए होता है -

Could I take this jacket with me? (क्या मैं इस जैकेट को अपने साथ ले जा सकता हूँ?)

You could borrow my umbrella. (आप मेरा छाता उधार ले सकते हैं।)

Could I get more water? (क्या मुझे और पानी मिल सकता है?)

You could sit here if you like. (आप चाहें तो यहां बैठ सकते हैं।)

Could you (please) repeat that again? (क्या आप उसे फिर से दोहरा सकते हैं?)

इसके अलावा आप इन **structures** का भी **use permission** लेने के लिए कर सकते हैं

हम permission के लिए May I + verb का use भी करते हैं जैसे -

May I have another piece of cake? (क्या मैं केक का एक और टुकड़ा ले सकता हूँ?)

May we go out with our friends tonight? (क्या हम आज रात अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं?)

Do you think I could + verb - जैसे -

Do you think I could use your cell phone? (क्या आपको लगता है कि मैं आपके सेल फोन का उपयोग कर सकता हूँ?)

Do you think I could borrow your car? (क्या आपको लगता है कि मैं आपकी कार मांग सकता हूँ?)

Would it be possible for me + infinitive जैसे -

Would it be possible for me to use your computer for a few minutes? (क्या मेरे लिए कुछ मिनटों के लिए आपके कंप्यूटर का उपयोग करना संभव होगा?)

Would it be possible for me to study in this room? (क्या मेरे लिए इस कमरे में अध्ययन करना संभव होगा?)

(infinitive - to + क्रिया की basic/ first form जैसे see, eat, drink, use)

Would you mind my/ me + verb + ing + your + object जैसे -

Would you mind my/ me using your cellphone? (मेरा आपका सेल फ़ोन use करना क्या आपको बुरा लगेगा?)

Would you mind my/ me playing your piano? (मेरा आपका पियानो बजाना क्या आपको बुरा लगेगा?)

Would you mind if I + verb (in past form) जैसे -

Would you mind if I opened the window? (अगर मैंने खिड़की खोली तो क्या आप बुरा मानेंगे?)

Would you mind if I took a five minute break? (अगर मैं पांच मिनट का ब्रेक लेता तो क्या आप बुरा मानते?)

Do you mind if I + verb जैसे -

Do you mind if I switch on the TV? (क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं टीवी चालू करूँ?)

Do you mind if I use your phone? (क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपके फ़ोन का इस्तेमाल करूँ?)

Do you mind my/ me + verb + ing + your + object जैसे -

Do you mind my **sitting** here?

Do you mind **me** sitting here?

(आपको मेरे यहां बैठने से कोई तकलीफ़ तो नहीं है ?)

Would you mind my (me) + verb + ing + your + object/ Would you mind if I + verb (in past form)/ Do you mind if I + verb का use लगभग एक ही sense में होता है। यह polite तरीके है किसी से permission लेने के।

How to respond to Permission

अगर आपसे कोई **permission** लें तो या तो फिर आप उन्हें मना करेंगे व उन्हें वह काम करने की **permission** देंगे।

अगर आप उन्हें **permission** देते हैं तो आप इन **phrases** का **use** कर सकते हैं -

Sure. (ज़रूर।)

No problem. (कोई बात नहीं।)

Sure, go ahead. (बिलकुल, आप करें।)

Yes, you can. (हाँ, आप कर सकते हैं।)

Please feel free. (कृप्या संकोच ना करें।)

I don't mind. (मुझे बुरा नहीं लगोगा।)

और अगर आप उन्हें मना करना चाहते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं -

I'm afraid I'd prefer if you didn't / don't. (मुझे डर है कि मैं पसंद करूँगी अगर तुम नहीं करते/ नहीं किया।)

Sorry, but I'd rather you not do this. (क्षमा करें, लेकिन मैं कहूँगा आप ऐसा ना करें।)

Unfortunately, I need to say no. (दुर्भाग्यवश, मुझे ना कहना पड़ेगा।)

I'm afraid that's not possible. (मुझे डर है कि यह संभव नहीं है।)

I'm sorry, but that's not possible. (मुझे खेद है, लेकिन यह संभव नहीं है।)

Sorry, you are not permitted. (क्षमा करें, आपको अनुमति नहीं है।)

Tip of the day

'BY' का use करना सीखें

by accident: अकस्मात् रूप से/ संयोगवश

I met him by accident. (मैं संयोगवश उनसे मिला।)

by appointment: पहले लिए गए समय के अनुसार

The doctor will meet on Sunday by appointment. (डॉक्टर रविवार को अपॉइंटमेंट से ही मिलेंगी।)

by all means: सब प्रकार से/ हर तरह से

By all means, this house is suitable for us. (हर तरह से, यह घर हमारे लिए उपयुक्त है।)

by birth: जन्म से

He is blind by birth. (वह जन्म से अंधा है।)

by chance: संयोग से

He became the captain by chance. (वह संयोग से कप्तान बन गया।)

by day/ night: दिन में/ रात में

The Taj Mahal looks beautiful by night. (ताज महल रात में बहुत सुन्दर दिखता है।)

by law: क़ानून के अनुसार

One should have a licence by law before driving. (क़ानून के अनुसार ड्राइविंग से पहले लाइसेंस होना चाहिए।)

by mistake: गलती से

I put salt in my tea by mistake. (मैंने गलती से अपनी चाय में नमक डाल दिया।)

by phone: फ़ोन द्वारा

Get in touch with me by phone. (फ़ोन द्वारा मेरे साथ संपर्क में रहें)

by post: डाक द्वारा

Do you think it is safe to send the documents by post? (क्या आपको लगता है कि डाक द्वारा दस्तावेज़ भेजना सुरक्षित है?)